



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक 07.07.2021

### थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा नाजायज़ 50 शीशी अंग्रेजी शराब व एक अदद पिस्टल के साथ शातिर अभियुक्त कुमार चिनमय आनन्द गिरफ्तार

थाना सिगरा पुलिस द्वारा पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शराब की बिक्री व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर श्रीराम कम्पलेक्स बस स्टैंड के पास से अभियुक्त कुमार चिनमय आनन्द पुत्र प्रशान्त कुमार सिंह नि० ग्राम रहुआमनी पोस्ट आफिस के पास वार्ड नं० 01 थाना बनगाँव जिला सहरसा (बिहार) को दिनांक 06.07.21 को समय 23.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 180 M.L. की 50 अदद अंग्रेजी शराब 8 PM व एक अदद पिस्टल 0.32 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में मु०अ०सं० 311/21 धारा 60 आबकारी अधि० व मु०अ०सं० 312/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**घटना का विवरण-** दिनांक 06.07.21 को चेकिंग अभियान के क्रम में थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने बैग में नाजायज शराब लेकर बिहार जाने वाली बस के इंतजार में खड़ा है तथा उसके पास एक अवैध पिस्टल भी है । इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके पास से 180 ML 8 PM का 50 अदद कागज का डब्बा में अंग्रेजी नाजायज शराब बरामद हुआ जिसपर अंग्रेजी में 8 PM SPECIAL RARE BLEND OF SCOTCH And INDIAN WHISKY NET 180 ML अंकित व बैग से एक अदद नाजायज पिस्टल 0.32 बोर बरामद हुआ ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

कुमार चिनमय आनन्द पुत्र प्रशान्त कुमार सिंह नि0 ग्राम रहुआमनी पोस्ट आफिस के पास वार्ड नं0 01 थाना बनगाँव जिला सहरसा (बिहार) उम्र 22 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण-**

50 अदद 8 PM अंग्रेजी शराब (180 M.L.) का व एक अदद पिस्टल 0.32 बोर।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. उ0नि0 मो सुफियान खां चौकी प्रभारी रोडवेज थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. हे0का0 विनय कुमार सिंह थाना सिगरा, कमिश्नरेट वाराणसी ।
4. हे0का0 राजेश कुमार सिंह थाना सिगरा, कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. हे0का0 शिवाकान्त मिश्र थाना सिगरा, कमिश्नरेट वाराणसी ।
6. का0 विपिन कुमार यादव थाना सिगरा, कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी